



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2013-14/73

बैंपविवि सं.डीआइआर. बीसी.15/ 13.03.00/ 2013-14

1 जुलाई 2013

10 आषाढ 1935 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों पर ब्याज दरें

कृपया आप [2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि .सं. डीआइआर. बीसी. 5/13.03.00-2012-13](#) देखें जिसमें अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में बैंकों को 30 जून 2012 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किये गये थे। 30 जून 2013 तक जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए इस मास्टर परिपत्र को उचित रूप से अद्यतन बना दिया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। मास्टर परिपत्र की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

(प्रकाश चंद्र साहू)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001

टलीफोन /Tel No: 22661602, 22601000 फैक्स/Fax No: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th & 13th Floor, Central Office Bhavan, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001

Tel No: 22661602, 22601000 Fax No: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाएँ

विषय-वस्तु

पैरा नं.	ब्योरे
क	<u>उद्देश्य</u>
ख	<u>वर्गीकरण</u>
ग	<u>पूर्व अनुदेश</u>
घ	<u>प्रयोज्यता</u>
1.	<u>प्रस्तावना</u>
2.	<u>दिशानिर्देश</u>
2.1	<u>सामान्य</u>
2.2	<u>आधार दर</u>
2.3	<u>आधार दर की प्रयोज्यता</u>
2.4	<u>ऋणों के लिए अस्थायी ब्याज दर</u>
2.5	<u>दंडात्मक ब्याज दर लगाना</u>
2.6	<u>ऋण संबंधी करारों में सामर्थ्यकारी खंड</u>
2.7	<u>समाशोधित न हुए चेक आदि पर आहरण</u>
2.8	<u>सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण</u>
2.9	<u>मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना</u>
2.10	<u>उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय योजनाएं</u>
2.11	<u>बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज</u>
अनुबंध 1	<u>आधार दर की गणना की विधि का उदाहरण</u>
अनुबंध 2	<u>30 जून 2010 तक स्वीकृत किए गए ऋणों पर लागू होने वाले बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) संबंधी दिशानिर्देश</u>
अनुबंध 3	<u>30 जून 2010 तक वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत किए गए मीयादी ऋणों सहित सभी रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढाँचा</u>
परिशिष्ट	<u>समेकित परिपत्रों की सूची</u>

अग्रिमों पर ब्याज-दरों से संबंधित मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों को समेकित करना।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया सांविधिक निदेश।

ग. पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए गए परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

संरचना

1. प्रस्तावना
2. दिशानिर्देश

2.1 सामान्य

2.2 आधार दर

2.3 आधार दर की प्रयोज्यता

2.4 ऋणों के लिए अस्थायी ब्याज दर

2.5 दंडात्मक ब्याज दर लगाना

2.6 ऋण संबंधी करारों में सामर्थ्यकारी खंड

2.7 समाशोधित न हुए चेक आदि पर आहरण

2.8 सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण

2.9 मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना

2.10 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय योजनाएं

2.11 बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज

अनुबंध 1 : आधार दर की गणना की विधि का उदाहरण

अनुबंध 2 : 30 जून 2010 तक स्वीकृत किए गए ऋणों पर लागू होने वाले बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) संबंधी दिशानिर्देश

अनुबंध 3 : 30 जून 2010 तक वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत किए गए मीयादी ऋणों सहित सभी रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढाँचा

परिशिष्ट: समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्टूबर 1960 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अग्रिमों पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करना प्रारंभ किया। 2 मार्च 1968 से न्यूनतम उधार दर की जगह बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम उधार दर लागू की गई जिसे 21 जनवरी 1970 से रद्द किया गया जब न्यूनतम उधार दर का निर्धारण पुनः लागू किया गया। बैंकों द्वारा अग्रिमों पर लगाई जाने वाली उच्चतम उधार दर को 15 मार्च 1976 से पुनः लागू किया गया और बैंकों को पहली बार यह सूचित किया गया कि अग्रिमों पर आवधिक अंतरालों पर अर्थात्, तिमाही अंतरालों पर ब्याज प्रभारित किया जाए। उसके बाद की अवधि के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों, कार्यक्रमों तथा प्रयोजनों के लिए विभिन्न ब्याज दरें लागू की गईं ।

1.2 समय के साथ-साथ विकसित हुई दरों की अत्यधिक विविधता की विशिष्टता वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उधार दरों के प्रचलित ढांचे के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 1990 में ब्याज दरों को ऋण की मात्रा के साथ जोड़ने वाला उधार दरों का एक नया ढांचा निर्धारित किया गया जिसके कारण ब्याज दरों की बहुविधता और जटिलता में उल्लेखनीय कमी आयी। विभेदक ब्याज दर योजना के मामले में जिसके अंतर्गत 4.0 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ऋण प्रदान किया जाता था

और निर्यात ऋण जो कि ब्याज दर सहायताओं से अनुपूर्ति किए गए उधार दरों की संपूर्णतः भिन्न व्यवस्था के अधीन था, विद्यमान उधार दर ढांचे को जारी रखा गया।

1.3 वित्तीय क्षेत्र सुधारों का एक लक्ष्य प्रशासित ब्याज दरों में निहित वित्तीय दमन को हटाना सुनिश्चित करना रहा है। तदनुसार, बैंकों को अधिक कार्यात्मक स्वायत्ता प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में 18 अक्टूबर 1994 से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 2 लाख रुपये से अधिक राशि की ऋण सीमाओं के लिए उधार दरों को मुक्त किया जाए, 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए यह निर्णय लिया गया कि इन उधारकर्ताओं को संरक्षण देना जारी करने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि उधार दरों को प्रशासित रखा जाए, दो लाख रुपये से अधिक राशि की ऋण सीमाओं के लिए न्यूनतम उधार दर निर्धारित किया जाना समाप्त कर दिया गया तथा बैंकों को ऐसी ऋण सीमाओं के लिए उधार दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी। अब बैंकों को न्यूनतम मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करने के लिए अपने संबंधित बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। यह बीपीएलआर ₹ 2 लाख से अधिक राशि की ऋण सीमाओं के लिए संदर्भ दर रहेगी। प्रत्येक बैंक को बेंचमार्क मूल उधार दर घोषित करनी होगी और वह सभी शाखाओं में एकसमान रूप से लागू होगी।

1.4 वर्ष 2003 में प्रारंभ की गई बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य को पाने में असफल रही। इसका मुख्य कारण यह था कि बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत बैंक बीपीएलआर से कम दर पर उधार दे सकते थे। इसी कारण बैंकों की उधार दरों में रिजर्व बैंक की नीति दरों के संचरण का मूल्यांकन करना भी कठिन था। तदनुसार बेंचमार्क मूल उधार दर पर गठित कार्यदल, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2009 में प्रस्तुत की, की सिफारिशों के आधार पर बैंको को सूचित किया गया कि वे 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली में अंतर्गत हो जाएं। आधार दर प्रणाली का उद्देश्य है बैंकों की उधार दरों में अधिक पारदर्शिता लाना और मौद्रिक नीति के संचरण का बेहतर मूल्यांकन करना।

2. दिशानिर्देश

2.1. सामान्य

2.1.1 अग्रिमों पर ब्याज लगाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार, बैंकों को ऋण / अग्रिम / नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट पर अथवा उनके

द्वारा स्वीकृत /दिये गये / नवीकृत किये गये किसी भी अन्य वित्तीय निभाव पर ब्याज लगाना चाहिए अथवा मीयादी बिल भुनाना चाहिए ।

2.1.2 ब्याज की निर्दिष्ट दरें मासिक अंतरालों पर प्रभारित की जाएं (यह पैरा 2.9 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी) तथा उसे निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जाए।

2.2 आधार दर

2.2.1 1 जुलाई 2010 से बीपीएलआर प्रणाली के स्थान पर आधार दर प्रणाली लागू की गयी है। आधार दर में उधार दरों के वे सब तत्व होंगे जो उधारकर्ताओं के सभी संवर्गों में सर्वसामान्य हैं । बैंक किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आधार दर निर्धारित करने के लिए कोई भी बेंचमार्क तय कर सकते हैं, जिसे पारदर्शी तरीके से प्रकट किया जाना चाहिए । आधार दर की गणना का एक उदाहरण अनुबंध 1 में दिया गया है । बैंक कोई और उपयुक्त विधि अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वह सुसंगत हो और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध हो ।

2.2.2 बैंक ऋणों और अग्रिमों के संबंध में अपनी वास्तविक उधार दरों का निर्धारण आधार दर को संदर्भ मानते हुए तथा यथोपयुक्त अन्य ग्राहक - विशेष प्रभारों को शामिल करते हुए कर सकते हैं । वास्तविक उधार दरें पारदर्शी और सुसंगत होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध होनी चाहिए ।

2.2.3 आधार दर की गणना की प्रणाली सुस्थिर होने तक बैंकों को कुछ समय देने के लिए, बैंकों को अनुमति दी गई थी कि आरंभिक छह महीने की अवधि अर्थात् दिसंबर 2010 तक के दौरान किसी भी समय वे बेंचमार्क और क्रियाविधि में परिवर्तन कर सकते हैं । इस समयावधि को अगले छः महीने के लिए बढ़ा 30 जून 2011 तक कर दिया गया था।

2.2.4 प्रत्येक बैंक के लिए केवल एक आधार दर हो सकता है । बैंक एकल आधार दर निर्धारित करने के लिए कोई भी बेंचमार्क चुनने के लिए स्वतंत्र है जिसे पारदर्शी तरीके से प्रकट किया जाना चाहिए।

2.2.5 आधार दर में परिवर्तन बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से आधार दर से जुड़े सभी वर्तमान ऋणों पर लागू होगा ।

2.2.6 चूंकि आधार दर सभी ऋणों के लिए न्यूनतम दर होगी, बैंकों को आधार दर से कम में उधार देने की अनुमति नहीं है। तदनुसार, ₹ 2 लाख तक के ऋणों के लिए उच्चतम दर के रूप में बीपीएलआर की वर्तमान व्यवस्था समाप्त की जा रही है। ऐसी आशा है कि उधार दर को उपर्युक्त रीति से नियंत्रणमुक्त करने से छोटे उधारकर्ताओं को तर्कसंगत दर पर अधिक ऋण मिलेगा और प्रत्यक्ष बैंक वित्तपोषण से उच्च लागत वाले अन्य प्रकार के ऋणों को कड़ी चुनौती मिलेगी।

2.2.7 बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तिमाही में कम-से-कम एक बार बैंक की प्रथा के अनुसार, बोर्ड या आस्ति देयता प्रबंध समिति के अनुमोदन से आधार दर की समीक्षा करें। चूंकि उधार उत्पादों के ब्याज निर्धारण की पारदर्शिता एक प्रमुख लक्ष्य है, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आधार दर के संबंध में सूचना अपनी सभी शाखाओं तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। आधार दर में परिवर्तन की सूचना भी समय-समय पर समुचित माध्यमों से सामान्य जनता को दी जानी चाहिए। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पहले की तरह ही तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को वास्तविक न्यूनतम और उच्चतम उधार दरों की सूचना देते रहें।

2.2.8 आधार दर प्रणाली के आरंभ के बाद भी बैंकों के पास ऋण की सभी श्रेणियों को नियत अथवा अस्थायी दर पर प्रस्तावित करने की स्वतंत्रता होगी। जहां ऋण नियत दर के आधार पर दिए जाते हैं वहां आधार दर की तिमाही समीक्षा के बावजूद नियत दर ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज की दर इस शर्त के अधीन वहीं रहना जारी रहेगी कि ऐसी नियत दर ऋण मंजूरी के समय आधार दर से कम नहीं होगी। तथापि, यदि उसके बाद आधार दर में वृद्धि की जाती है और इस क्रम में नियत दर नई आधार दर से कम हो जाए तो इसे आधार दर संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

2.3 आधार दर की प्रयोज्यता

2.3.1 1 जुलाई 2010 से घरेलू रुपये ऋण की सभी श्रेणियों का ब्याज दर निर्धारण केवल आधार दर का संदर्भ लेते हुए किया जाना चाहिए। तदनुसार आधार दर प्रणाली सभी नये ऋणों पर और पुराने ऋणों के नवीकरण पर लागू होगी। बीपीएलआर प्रणाली पर आधारित वर्तमान ऋण परिपक्वता तक जारी रह सकते हैं। यदि वर्तमान उधारकर्ता वर्तमान संविदा की समाप्ति के पहले नई प्रणाली अपनाना चाहें तो परस्पर सहमत शर्तों पर उन्हें यह विकल्प प्रदान किया जा सकता है। तथापि, बैंकों को इस बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

2.3.2 तथापि निम्नलिखित ऋण की श्रेणियों का ब्याज दर निर्धारण आधार दर का संदर्भ लिए बिना किया जा सकता है :

(क) डीआरआइ अग्रिम;

(ख) बैंक के अपने कर्मचारियों जिनमें उनके सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं, को ऋण;

(ग) बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी अपनी जमाराशियों की जमानत पर ऋण

2.3.3 उन मामलों में जहां उधारकर्ताओं को ब्याज दर सहायता उपलब्ध हैं, वहां निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है :

(i) फसल ऋणों पर ब्याज दर सहायता

क) तीन लाख रुपये तक के फसल ऋणों के मामले में जिनके लिए ब्याज दर सहायता उपलब्ध है, बैंकों द्वारा किसानों पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर लगाया जाना चाहिए । यदि बैंक को मिलने वाला प्रतिफल (ब्याज दर सहायता को शामिल करने के बाद) आधार दर से कम है तो इस तरह के उधार को आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(ख) तुरंत चुकौती के लिए प्रदान की गई छूट के संबंध में, चूंकि उससे ऐसे ऋणों पर बैंकों को मिलने वाले प्रतिफल (उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित) में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः आधार दर दिशानिर्देशों के अनुपालन के निर्धारण में उसे एक घटक नहीं माना जाएगा ।

ii) निर्यात ऋण पर ब्याज दर सहायता

रुपया निर्यात ऋण की सभी अवधियों पर लागू होने वाली ब्याज की दरें आधार दर के बराबर या उससे अधिक होंगी । उन मामलों में जहां ब्याज दर सहायता उपलब्ध है वहां बैंकों को आधार दर प्रणाली के अनुसार निर्यातकों को प्रभार्य ब्याज दर को ब्याज दर सहायता की उपलब्ध राशि से घटाना होगा । यदि, ऐसा करने के परिणामस्वरूप निर्यातकों को प्रभारित ब्याज दर आधार दर से कम हो जाती है तो ऐसे उधार को आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा ।

2.3.4 पुनर्चित ऋण

पुनर्वित्त ऋणों के मामले में यदि अर्थक्षमता के प्रयोजन के लिए कुछ कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण (डबल्यूसीटीएल), निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल), आदि को आधार दर से कम दर पर मंजूरी दी जाती हैं और उनमें क्षतिपूर्ति आदि की शर्तें शामिल हैं तो ऐसे उधारों को आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

2.3.5 जिन मामलों में उधारकर्ताओं को पुनर्वित्त उपलब्ध है, वहाँ निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

(क) ऑफ-ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एप्लिकेशनों का वित्तपोषण

भारत सरकार, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के एक हिस्से के रूप में ऑफ-ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर (फोटोवोल्टेइक एंड थर्मल) एप्लिकेशनों के वित्तपोषण के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत बैंक ऐसे मामलों में उद्यमियों को पांच प्रतिशत या उससे कम ब्याज दरों पर आर्थिक सहायताप्राप्त ऋण प्रदान करें जहां भारत सरकार से दो प्रतिशत की पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध हो। जहां भारत सरकार की पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध हो, वहां पांच प्रतिशत और उससे कम ब्याज दरों पर दिए जाने वाले इस प्रकार के उधार को आधार दर संबंधी हमारे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की लघु ऋण योजना तथा नैशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीएफसी) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना

बैंक पुनर्वित्त की उपलब्धता की सीमा तक एनएसटीएफडीसी/एनएचएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं। इस प्रकार से दिए गए उधार को, आधार दर से कम दर पर होने के बावजूद, हमारे आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पुनर्वित्त के अंतर्गत नहीं आने वाले अंश पर प्रभारित ब्याज दर आधार दर से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना

बैंक पुनर्वित्त की उपलब्धता की सीमा तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं। इस

प्रकार से दिए गए उधार को, आधार दर से कम दर पर होने के बावजूद, हमारे आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पुनर्वित्त के अंतर्गत नहीं आने वाले अंश पर प्रभारित ब्याज दर आधार दर से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को उधार देना

अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को वित्त प्रदान करने वाले बैंक नाबार्ड से उपलब्ध पुनर्वित्त की सीमा तक अपनी आधार दर से कम दर पर वित्त प्रदान कर सकते हैं। तथापि बैंक जब अपनी स्वयं की निधियों का उपयोग करते हैं तो उन्हें आधार दर से कम दर पर उधार देने की अनुमति नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएफएसडीसी) के हिताधिकारियों के लिए बैंक का वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया है।

बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध होने की सीमा तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएफएसडीसी) की योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित दरों पर ब्याज ले सकते हैं। ऐसे उधार, यदि आधार दर से कम हों, तो भी आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तथापि, पुनर्वित्त के अंतर्गत शामिल न किए जाने वाले भाग पर ब्याज दर आधार दर से कम नहीं होनी चाहिए।

2.3.6 बेंचमार्क मूल उधार दर प्रणाली के अंतर्गत लागू ब्याज दरें 30 जून 2010 तक स्वीकृत किए गए सभी ऋणों पर लागू हैं। बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) तथा स्प्रेड और 30 जून 2010 तक स्वीकृत मौजूदा ऋणों के लिए उसके निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश अनुबंध 2 तथा 3 दिए गए हैं।

2.4. ऋणों के लिए अस्थायी ब्याज दर

2.4.1 बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे सभी प्रकार के ऋण निश्चित या अस्थायी दर पर दे सकें परंतु इस संबंध में उन्हें आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपने अस्थायी दर के ऋण उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए सिर्फ बाह्य अथवा बाजार आधारित रूपया बेंचमार्क मूल उधार दर का प्रयोग करना चाहिए। अस्थायी दरों की गणना की विधि वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी तथा दोनों पार्टियों को परस्पर स्वीकार्य होनी चाहिए। बैंकों को अपने आंतरिक बेंचमार्क दर या पूर्वताप्राप्त (अंडर लाइंग)

किसी अन्य व्युत्पन्न दर से संबद्ध किसी अस्थायी दर वाले ऋण प्रस्तावित नहीं करने चाहिए । यह विधि सभी नए ऋणों के लिए अपनाई जानी चाहिए। दीर्घावधि/सावधि वर्तमान ऋणों के मामलों में, बैंकों को ऋण खातों की समीक्षा या नवीकरण करते समय संबंधित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की सहमति प्राप्त करके उपर्युक्त विधि के अनुसार अस्थायी दरों को पुनर्निर्धारित करना चाहिए ।

2.5 दंडात्मक ब्याज दर लगाना

बैंकों को अपने निदेशक-मंडल के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए पारदर्शी नीति बनाने की अनुमति दी गई है । परंतु प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों के संबंध में ₹ 25,000/- तक के ऋणों के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए । चुकौती में चूक, वित्तीय विवरण प्रस्तुत न करने आदि कारणों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है । परन्तु दंडात्मक ब्याज संबंधी नीति पारदर्शिता, निष्पक्षता, ऋण की चुकौती के लिए प्रोत्साहन और ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखने के सम्यक्-स्वीकृत सिद्धांतों को आधार बनाकर तैयार की जानी चाहिए ।

2.6 ऋण करारों में सामर्थ्यकारी खंड

2.6.1 बैंकों को मीयादी ऋण सहित सभी प्रकार के अग्रिमों के मामलों में ऋणसंबंधी करारों में निम्नलिखित शर्त अनिवार्यतः शामिल करनी चाहिए जिससे कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुकूल ब्याज दर लागू कर सकें ।

“बशर्ते ऋणकर्ता द्वारा देय ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किये गये ब्याज दर संबंधी परिवर्तनों के अधीन होगा ।”

2.6.2 चूंकि बैंक ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों से बाध्य हैं जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क के अंतर्गत जारी किये जाते हैं, अतः बैंक किसी भी प्रकार के ब्याज दर संशोधन को लागू करने के लिए बाध्य हैं, चाहे दरें बढ़ायी जायें या घटायी जायें और यह निदेश / संशोधित ब्याज दर (आधारभूत मूल उधार-दर और अंतर) में परिवर्तन के लागू होने की तारीख से सभी मौजूदा अग्रिमों पर लागू होगा, जब तक कि विशिष्ट रूप से किसी अन्य बात के निदेश न हों ।

2.7. समाशोधित न हुए चेक आदि पर आहरण

2.7.1 जहां समाशोधन के लिए भेजे गये चेकों, अर्थात् समाशोधित न हुई राशि (उदाहरण के लिए समाशोधित न हुए स्थानीय या बाहरी चेक) जो गैर-जमानती अग्रिम के स्वरूप के होते हैं /होती हैं, के बदले आहरण की अनुमति है, वहाँ बैंकों को ऐसे आहरणों पर अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुसार ब्याज लगाना चाहिए ।

2.7.2 यह नोट किया जाए कि ये अनुदेश ग्राहक-सेवा के एक उपाय के रूप में उगाही के लिए भेजे गये चेकों के संबंध में तत्काल राशि जमा करने संबंधी जमाकर्ताओं को दी गयी सुविधा पर लागू नहीं होंगे।

2.8 सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण

बैंकों को सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी एकसमान दर पर ब्याज लगाना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक सदस्य-बैंक को ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण-सीमा के भाग पर अपनी आधारभूत मूल उधार दर के अधीन ब्याज लगाना चाहिए ।

2.9. मासिक अंतराल पर ब्याज प्रभारित करना

2.9.1 बैंकों को 1 अप्रैल 2002 से मासिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित करने के लिए सूचित किया गया था। मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नये और मौजूदा मीयादी ऋणों तथा अपेक्षाकृत लंबी / नियत अवधि के अन्य ऋणों पर लागू होगा। अपेक्षाकृत लंबी / नियत अवधि के मौजूदा ऋणों के मामले में बैंक ऋण की शर्तों की समीक्षा करते समय अथवा ऐसे ऋण- खातों का नवीकरण करते समय या ऋणकर्ता से सहमति प्राप्त करने के बाद मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना आरंभ करेंगे।

2.9.2 मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे और बैंक फसल-मौसमों से संबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने /चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की वर्तमान प्रथा जारी रखेंगे। 29 जून 1998 के परिपत्र आरपीसीडी.सं. पीएलएफएस. बीसी. 129/05.02.27/97-98 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार बैंकों को लंबे समय की फसलों के लिए कृषि अग्रिमों पर वार्षिक अंतराल पर ब्याज लगाना चाहिए । अल्प समय की फसलों और संबद्ध कृषि कार्यकलापों जैसे डेरी, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि के संबंध में यदि ऋण / किस्त का भुगतान अतिदेय हो जाये तो बैंक ब्याज लगाते समय और चक्रवृद्धि ब्याज लगाते समय ऋण लेने वालों के साथ लचीलेपन और फसल कटने /बेचने के मौसम के आधार पर तय की गयी तारीखों को ध्यान में रखें । साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में, किसी खाते पर नामे कुल ब्याज मूलधन की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2.10. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर वित्त संबंधी योजनाएं

बैंकों को निर्माताओं / डीलरों से प्राप्त डिस्काउंट के समायोजन के माध्यम से ऋणकर्ताओं को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए कम /शून्य प्रतिशत ब्याज-दर पर अग्रिम देने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी ऋण- योजनाओं में परिचालनगत पारदर्शिता की कमी होती है और इनके चलते ऋण उत्पादों की मूल्यन-व्यवस्था विकृत हो जाती है। ये उत्पाद लगाये गए ब्याज की दरों के संबंध में ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी भी नहीं देते। बैंकों को विभिन्न समाचार-पत्रों और प्रचार माध्यमों में विज्ञापन देकर ऐसी योजनाओं को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए कि वे ऐसी योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुविधा /वित्त प्रदान कर रहे हैं । बैंकों को किसी भी ऐसे प्रोत्साहन-आधारित विज्ञापन के साथ किसी भी रूप में/प्रकार से अपना नाम जोड़ने से बचना चाहिए जहां ब्याज दर के संबंध में स्पष्टता न हो।

2.11 बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज

2.11.1. हालांकि ब्याज दरों का अविनियमन किया गया है, फिर भी, एक विशिष्ट स्तर से अधिक ब्याज प्रभारित करना सूदखोरी मानी जाती है और उसे न तो निरंतर बनाए रखा जा सकता है और वह न ही सामान्य बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार हो सकता है। अतः बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया है कि वे ऐसी उचित आंतरिक सिद्धांत तथा क्रियाविधियां निर्धारित करें कि जिससे वे ऋण तथा अग्रिमों पर अत्यधिक (सूदखोर) ब्याज जिसमें प्रसंस्करण तथा अन्य प्रभार शामिल हैं, प्रभारित नहीं करेंगे। कम मूल्य के ऋणों, विशेषतः व्यक्तिगत ऋणों तथा उसी प्रकार के कुछ अन्य ऋणों के संबंध में ऐसे सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों को निर्धारित करते समय बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विस्तृत दिशानिर्देशों को ध्यान में लेना हो :

(क) ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने के लिए एक उचित पूर्वानुमोदन प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। इस प्रक्रिया में अन्य बातों सहित भावी उधारकर्ता के नकद प्रवाहों को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

(ख) बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता के आंतरिक रेटिंग को ध्यान में लेते हुए उचित तथा योग्य समझे गये जोखिम प्रीमियम को शामिल किया जाना

चाहिए। इसके अलावा, जोखिम पर विचार करते समय, जमानत का होना या न होना तथा उससे मूल्य को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

(ग) उधारकर्ता को ऋण की कुल लागत जिसमें ऋण पर लगाए जाने वाला ब्याज और अन्य सभी प्रभार शामिल हैं, उचित होनी चाहिए और जिस ऋण को चुकाया जाना है, उसे प्रदान करने में बैंक द्वारा ग्रहण की गई कुल लागत तथा उक्त लेन-देन से अपेक्षित उचित लाभ की मात्रा के अनुकूल होनी चाहिए।

(घ) ऐसे ऋणों पर लगाए जाने वाले प्रसंस्करण तथा अन्य प्रभारों सहित ब्याज की एक उचित उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसे उचित रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

आधार दर की गणना की विधि का उदाहरण (कृपया पैराग्राफ 2.2.1 देखें)

आधार दर = क + ख + ग + घ

क - जमाराशि /निधि की लागत = डी_{लागत}

(बेंचमार्क)

ख - सीआरआर तथा एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार =
$$\left[\frac{\left(\text{डी}_{\text{लागत}} - (\text{एसएलआर} * \text{टी आर.}) \right) * 100}{(1 - (\text{सीआरआर} + \text{एसएलआर}))} \right] - \text{डी}_{\text{लागत}}$$

ग - अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत =
$$\left[\frac{\text{यूसी}}{\text{डी पीएलवाई}} \right] * 100$$

घ - नेटवर्थ पर औसत आय =
$$\left[\left\{ \frac{\text{एनपी}}{\text{एनडब्ल्यू}} \right\} * \left\{ \frac{\text{एनडब्ल्यू}}{\text{डी पीएलवाई}} \right\} \right] * 100$$

जहां

डी_{लागत} : जमाराशि /निधि की लागत

डी : कुल जमाराशि = मीयादी जमाराशि + चालू जमाराशि + बचत जमाराशि

डी_{पीएलवाई} : अभिनियोजनीय जमाराशि

= सीआरआर तथा एसएलआर शेष के रूप में अवरुद्ध जमाराशि का अंश घटाकर कुल जमाराशि अर्थात्

$$= डी * [1 - (सीआरआर + एसएलआर)]$$

सीआरआर : आरक्षित नकदी निधि अनुपात

एसएलआर : सांविधिक चलनिधि अनुपात

टी आर : 364 खजाना बिल दर

यू सी : अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत

एनपी : निवल लाभ

एन डब्ल्यू : नेटवर्थ = पूंजी + निर्बंध आरक्षित निधियां

सीआरआर तथा एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार

$$\text{सीआरआर तथा एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार} = \left[\frac{(डी_{लागत} - (एसएलआर * टी_{आर}))}{(1 - (सीआरआर + एसएलआर))} \right] * 100 - डी_{लागत}$$

सीआरआर तथा एसएलआर शेष पर ऋणात्मक प्रभार सीआरआर शेष पर आय शून्य होने तथा एसएलआर शेष पर आय (364 दिवसीय खजाना बिल दर के प्रयोग के आधार पर अनुमानित) जमाराशि की लागत से कम होने के कारण उत्पन्न होता है। सीआरआर तथा एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार की गणना तीन चरणों में की गयी है। पहले चरण में एसएलआर निवेश पर आय की गणना 364 दिवसीय खजाना बिलों का प्रयोग करते हुए की गयी है। दूसरे चरण में, प्रभावी लागत की गणना जमाराशि की लागत (एसएलआर निवेश पर आय के लिए समायोजित) तथा अभिनियोजनीय जमाराशि (सीआरआर तथा एसएलआर शेष के रूप में अवरुद्ध जमाराशि घटाकर कुल जमाराशि) का अनुपात (प्रतिशत के रूप

में व्यक्त) लेकर की गयी है। तीसरे चरण में, एसएलआर तथा सीआरआर पर ऋणात्मक प्रभार की लागत की गणना प्रभावी लागत तथा जमाराशि की लागत का अंतर निकालकर की गयी है।

अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत

$$\text{अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत} = \left[\begin{array}{c} \text{यूसी} \\ \text{डी पीएलवाई} \end{array} \right] * 100$$

अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत की गणना अनाबंटित उपरिव्यय लागत तथा अभिनियोजनीय जमाराशि का अनुपात (प्रतिशत के रूप में व्यक्त) निकालकर की जाती है।

नेटवर्थ पर औसत आय

$$\text{नेटवर्थ पर औसत आय} = \left[\left\{ \frac{\text{एनपी}}{\text{एनडब्ल्यू}} \right\} * \left\{ \frac{\text{एनडब्ल्यू}}{\text{डी पीएलवाई}} \right\} \right] * 100$$

नेटवर्थ पर औसत आय की गणना निवल लाभ तथा नेटवर्थ के अनुपात और नेटवर्थ तथा अभिनियोजनीय जमाराशि के अनुपात के गुणनफल को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर की जाती है।

30 जून 2010 तक स्वीकृत किए गए ऋणों पर लागू होने वाले बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) संबंधी दिशानिर्देश [कृपया पैराग्राफ 2.3.6 देखें]

18 अक्टूबर 1994 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 लाख रुपयों से अधिक राशि के अग्रिमों पर ब्याज दरों का अविनियमन किया है और ऐसे अग्रिमों पर ब्याज की दरें बीपीएलआर और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन बैंकों को अपने आप निर्धारित करनी हैं। 2 लाख रुपयों तक की ऋण सीमाओं के लिए बैंकों को उतना ही ब्याज प्रभारित करना चाहिए जो कि उनके बीपीएलआर से अधिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दरों को निश्चित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, बैंक अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी तथा वस्तुपरक नीति के आधार पर निर्यातकों अथवा अन्य ऋण देने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को बीपीएलआर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं, जिनमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। बैंक बीपीएलआर से ऊपर ब्याज दरों के अधिकतम स्प्रेड को घोषित करना जारी रखेंगे।

भारत में प्रचलित ऋण बाज़ार की स्थिति तथा छोटे उधारकर्ताओं को रियायत देना जारी रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में बीपीएलआर को 2 लाख रुपयों तक के ऋणों के लिए उच्चतम सीमा मानने की प्रथा जारी रहेगी।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए दिए गए ऋणों, शेयर तथा डिबेंचर्स/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों के लिए दिए गए ऋणों, अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋणों आदि के संबंध में नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार बैंक बीपीएलआर से संदर्भ किए बिना तथा ऋण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यूनतम मूल उधार दर संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एकसमान रूप से लागू की जाएगी।

बेंचमार्क मूल उधार दर का निर्धारण

बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि मूल उधार दर वास्तविक लागत दर्शाये, बैंक अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर का निर्धारण करते समय नीचे दिये गये सुझावों पर विचार करें :

बैंकों को बेंचमार्क मूल उधार दर निर्धारित करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालन व्यय तथा (iii) प्रावधानीकरण / पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन संबंधी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए। बैंकों को अपने निदेशक-मंडल के अनुमोदन से बेंचमार्क मूल उधार दर घोषित करनी चाहिए।

बेंचमार्क मूल उधार दर 2 लाख रुपये तक की ऋण-सीमा के लिए अधिकतम दर होगी।

उपर्युक्त के अनुसार मीयादी प्रीमियम तथा /अथवा जोखिम प्रीमियम को विचार में लेते हुए निर्धारित की गई बेंचमार्क मूल उधार दर के संदर्भ में सभी अन्य उधार दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

बेंचमार्क मूल उधार-दर के परिचालनगत पहलुओं से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश भारतीय बैंक संघ ने 25 नवंबर 2003 को जारी किए हैं।

ग्राहक संरक्षण के हित में और उधारकर्ताओं को प्रभारित की गई वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में अधिक पारदर्शिता हो, इसके लिए बैंकों को चाहिए कि वे बेंचमार्क मूल उधार दर के साथ प्रभारित की जाने वाली अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों संबंधी जानकारी देना जारी रखें।

उधार दरें निश्चित करने की स्वतंत्रता

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में बैंकों को बीपीएलआर से संदर्भ किए बिना तथा ऋण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है :

- i. टिकाऊ- उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण;
- ii. शेयर तथा डिबेंचर्स /बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को दिए गए ऋण;
- iii. क्रेडिट कार्ड देयताओं सहित अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण;
- iv. बैंक के पास घरेलू / अनिवासी बाह्य खाता / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम / ओवरड्राफ्ट, बशर्ते कि जमाराशि / जमाराशियां या तो ऋणकर्ता / ऋणकर्ताओं के स्वयं के नाम में हों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ऋण लेनेवाले के नाम में हों;
- v. अंतिम हिताधिकारियों को आगे उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों (नीचे दी गयी सूची) सहित मध्यवर्ती एजेंसियों तथा निविष्टि समर्थन देने वाली एजेंसियों को प्रदान किया गया वित्त;
- vi. बिलों की भुनाई;
- vii. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों /वस्तुओं की जमानत पर दिए गए ऋण/ अग्रिम/ नकद ऋण /ओवरड्राफ्ट;
- viii. किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्थान को;
- ix. अपने ही कर्मचारियों को ;
- x. मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं द्वारा कवर किए गए ऋण।

मध्यवर्ती एजेंसियों की उदाहरणस्वरूप सूची

1. कमज़ोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन । कमज़ोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं -
 - i) 5 एकड़ और उससे कम भूधारितावाले लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार और बंटाईदार ;
 - ii) शिल्पी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनमें अलग-अलग ऋण संबंधी अपेक्षाएं 50 हजार रुपये से अधिक न हों ;

- iii) स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के लाभार्थी;
- iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ।
- v) विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी;
- vi) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी;
- vii) सफाईवालों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थी ।
- viii) स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत अग्रिम ।
- ix) विपत्तिग्रस्त गरीबों को अनौपचारिक क्षेत्र से लिए गए उनके ऋण को चुकाने के लिए उचित संपार्श्विक अथवा सामूहिक जमानत पर ऋण।

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उपर्युक्त (i) से (viii) के अंतर्गत प्रदान किये गये ऋण है।

उन राज्यों में जहां अधिसूचित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय में से एक वास्तव में अधिसंख्यक समुदाय है वहां मद (ix) के अंतर्गत केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक कवर किए जाएंगे। वे राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैण्ड और लक्षद्वीप।

2. कृषि निविष्टियों / उपकरणों के वितरक ।
- 3 राज्य वित्त निगम /राज्य औद्योगिक विकास निगम, उस सीमा तक जिस सीमा तक वे कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं ।
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ।
5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।
6. विकेंद्रीकृत क्षेत्र को मदद करनेवाली एजेंसियां ।
7. कमजोर वर्गों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन ।
8. आवास और शहरी विकास निगम लि . (हडको) ।
9. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां ।
10. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति के लिए और /अथवा उनके उत्पादन के विपणन के लिए) ।
11. स्वयं सहायता समूहों को आगे ऋण देने के लिए व्यक्ति वित्त संस्थाएं/गैर सरकारी संगठन ।

वाणिज्य बैंकों द्वारा 30 जून 2010 तक मंजूर मीयादी ऋणों सहित सभी रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढाँचा (पैराग्राफ 2.3.6)

ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)

1. (क) 2 लाख रुपये सहित 2 लाख रुपये तक	बैंचमार्क मूल उधार दर से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक	बैंचमार्क मूल उधार दर और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि बैंक अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं यथार्थपरक नीति के आधार पर निर्यातकों या सरकारी उद्यमों सहित अन्य योग्य उधारकर्ताओं को बैंचमार्क मूल उधार दर से कम दर पर भी ऋण दे सकते हैं।

2. निर्यात ऋण (30 जून 2010 तक)

निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 मई 2010 से 30 जून 2010 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, बैंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशतता बिंदु घटाकर आनेवाली दर से अनधिक होंगे।

	निर्यात ऋण की श्रेणियां
1.	पोतलदानपूर्व ऋण (अग्रिम की तारीख से)
	(क) 270 दिन तक
	(ख) ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों के आधार पर 90 दिन तक
2.	पोतलदानोत्तर ऋण (अग्रिम की तारीख से)
	(क) मांग बिलों पर पारगमन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)
	(ख) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारगमन अवधि तथा अनुग्रह अवधि , जहां कहीं लागू हो, शामिल होगी)
	i) 180 दिनों तक ii) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र निर्यातकों के लिए 365 दिन तक
	(ग) सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों (ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले) के आधार पर 90 दिन तक
	(घ) अनाहरित शेष राशियों के आधार पर (90 दिनों तक)
	(ङ.) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि के आधार पर (केवल आपूर्ति वाले भाग के लिए) (90 दिनों तक)
बीपीएलआर : बेंचमार्क मूल उधार दर	
नोट: 1. चूंकि ये अधिकतम दरें हैं, इसलिए बैंक अधिकतम दर से नीचे किसी भी दर पर ब्याज लगा सकते हैं।	
2. उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधियों से अधिक के निर्यात ऋण की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए	

निर्धारित ब्याज दर अविनियमित हैं और बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर और स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

3.	30 जून 2010 तक शैक्षणिक ऋण योजना	
	4 लाख रु पये तक	बेंचमार्क मूल उधार दर से अधिक नहीं
	4 लाख रु पये से अधिक	बेंचमार्क मूल उधार दर +1%
नोट	1. चुकौती छूट अवधि / ऋण-स्थगन अवधि के दौरान सरल आधार पर तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज नामे लिखा जाए।	
	2. दो लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए अतिदेय अवधि और अतिदेय राशि पर 2% दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाए।	
4.	निम्नलिखित ऋणों के संबंध में 30 जून 2010 तक बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर और आकार पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:	
	i. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ खरीदने के लिए ऋण।	
	ii. शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण।	
	iii. क्रेडिट कार्ड देयताओं सहित गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्य व्यक्तिगत ऋण।	
	iv. बैंकों के पास जमाओं/अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाओं के आधार पर अग्रिम/ओवड्राफ्ट, परंतु शर्त यह होगी कि जमाराशि या तो उधारकर्ता के खुद के नाम में हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नाम में हो।	
	v. अंतिम लाभग्राहियों और इनपुट सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों को ऋण दिए जाने हेतु मध्यवर्ती एजेंसियों को (आवास एजेंसियों को छोड़कर) मंजूर किया गया वित्त।	
	vi. अंतिम लाभग्राहियों को ऋण दिए जाने हेतु आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को मंजूर किया	

	गया वित्त ।
vii.	बिलों की भुनाई ।
viii.	वस्तुओं की जमानत पर ऋण /अग्रिम/नकदी ऋण /ओवरड्राफ्ट, परंतु इस मामले में चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी शर्तें लागू होंगी।
ix.	किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्थान को।
x.	अपने ही कर्मचारियों को।
5.	30 जून 2010 तक मीयादी ऋण संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं में सहभागिता के कारण सुरक्षित ऋण
	बैंचमार्क मूल उधार दर का ध्यान रखे बिना, पुनर्वित्त एजेन्सियों की शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र।
6.	डी आर आई अग्रिम - 4.0%
नोट	मध्यवर्ती एजेन्सियों के नाम मास्टर परिपत्र के अनुबंध 2 में दिये गये हैं ।

परिशिष्ट

अग्रिमों पर ब्याज दरें संबंधी मास्टर परिपत्र में संकलित परिपत्रों की समेकित सूची

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	ग्राआरूवि.सं.बीसी.29/पीएस.22-84	16.03.1984	प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों के अंतर्गत उधारकर्ताओं के संबंध में मार्जिन तथा प्रतिभूति संबंधी मानदंड
2.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.90/सी.347/85	02.08.1985	लेनदेन को 5 पैसे के निकटतम गुणक में पूर्णांकित करना
3.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.38/सी.96-86	24.03 1986	अग्रिमों पर ब्याज दरें - उनमें संशोधन का मौजूदा अग्रिमों पर परिणाम
4.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.88/सी.96-89	08.03.1989	अग्रिमों पर ब्याज दरें - ब्याज की दंडात्मक दर-स्पष्टीकरण
5.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.18 एवं 19/सी.96-90	21.09.1990	अग्रिमों पर ब्याज दरें
6.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.36/सी.347-90	22.10.1990	लेनदेन को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करना
7.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.92/सी.96-91	06.03.1991	अग्रिमों पर ब्याज दरें

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
8.	आइईसीडी.सं.19/08.13.09/93-94	28.10.1993	कार्यकारी पूंजी के प्रयोजन के लिए बैंकों के उधार के लिए मानदंडों के निर्धारण में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका की समीक्षा करने के लिए स्थापित आंतरिक दल की रिपोर्ट
9.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.115/13.07.01/94	17.10.1994	अग्रिमों पर ब्याज दरें
10.	आइईसीडी.सं.28/08.12.01/94-95	22.11.1994	उधार देने संबंधी अनुशासन का अनुपालन - क) सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उधार के लिए ब्याज की समान दरें प्रभारित करना तथा ख) अनुशासन का अनुपालन न करने पर दंडात्मक ब्याज
11.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.141/13.07.01-94	07.12.1994	अग्रिमों पर ब्याज दरें
12.	ग्राआरूवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.165/06.03.01/94-95	06.06.1995	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रइमरी वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज के वित्तपोषण की योजना
13.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.89/13.07.0	21.08.1995	उधार दरों का अविनियमन -

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
	1/95		ब्याज कर लगाना
14.	बैंपविवि.सं.बीसी.99/13.07.01/95	12.09.1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें
15.	आरपीसीडी.सं.पीएल.बीसी.120/04.09.2 2/95-96	02.04.1996	बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहलग्न करना-एनजीओ तथा एसएचजी पर कार्यकारी दल - सिफारिशों - अनुवर्ती कार्रवाई
16.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.139/13.07. 01/96	19.10.1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - प्राथमिक उधार दर
17.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.10/13.07.0 197	12.02.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें - प्राथमिक उधार दर
18.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.124/13.07. 01/97-98	21.10.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें
19.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.33/13.03.0 0/98	29.04.1998	अग्रिमों पर ब्याज दरें
20.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.36/13.03.0 0/98	29.04.1998	मौद्रिक तथा ऋण नीति - उपाय
21.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.35/21.01.002/9 9	24.04.1999	मौद्रिक तथा ऋण नीति - उपाय

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
22.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.100/13.07.01/99	11.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें - नियत दर ऋण
23.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.106/13.03.00/99	29.10.1999	अग्रिमों पर ब्याज दरें
24.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.114/13.07.00/99	29.10.1999	मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा - 1999-2000
25.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.168/13.03.00/2000	27.04.2000	वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति - ब्याज दर नीति
26.	बैंपविवि.सं.बीसी.178/13.07.01/2000	25.05.2000	अग्रिमों पर ब्याज दरें
27.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.31/21.04.048/00-01	10.10.2000	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय - वर्ष 2000-2001 की मध्यावधि समीक्षा
28.	आईसीडी.सं.9/04.02.01/2000-01	05.01.2001	निर्यात ऋण पर ब्याज दरें
29.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.106/13.03.00/2000-01	19.04.2001	अग्रिमों पर ब्याज दरें
30.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.107/13.03.00/2000-01	19.04.2001	वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति - ब्याज दर नीति
31.	आईसीडी.सं.13/04.02.01/2000 - 01	19.04.2001	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
32.	ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.83/ 06.12.05/2000-01	28.04.2001	शैक्षिक ऋण योजना
33.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.117/13.07. 01/2000-01	04.05.2001	दंडात्मक ब्याज प्रभारित करना
34.	ग्राआऋवि.आयो.बीसी.15/04.09.01/20 01-02	17.08.2001	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों पर बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज प्रभारित करना
35.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.75/13.07.0 1/2002	15-03-2002	अग्रिमों पर ब्याज दरें
36.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.8/13.07.00 /2002-03	26-07-2002	मासिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित करना- समेकित अनुदेश
37.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.19/13.07.0 1/2002-03	19.08.2002	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज वित्त योजनाएं
38.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.25/13.03.0 0/2002-03	19.09.2002	मासिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित करना . कृषि अग्रिम
39.	आइईसीडी.सं.18/04.02.01/2002-03	30.04.2003	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
40.	बैंपविवि.सं.बीसी.103/13.07.01/2003	30.04.2003	अग्रिमों पर ब्याज दरें
41.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.103ए/13.03	30.04.2003	अग्रिमों पर ब्याज दरें - प्राथमिक

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
	.00/2002-03		उधार दर तथा स्प्रेड
42.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.10/13.03.0 0/2003-04	14.08.2003	अग्रिमों पर ब्याज दरें
43.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.38/13.03.0 0/2003-04	21.10.2003	अग्रिमों पर ब्याज दरें - प्राथमिक उधार दर तथा स्प्रेड
44.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.39/13.03.0 0/2003-04	21.10.2003	अग्रिमों पर ब्याज दरें - प्राथमिक उधार दर तथा स्प्रेड
45.	बैंपविवि.सं.81/13.07.01/2003-04	24.04.2004	अग्रिमों पर ब्याज दरें
46.	आईसीडी.सं.10/04.02.01/2003-04	24.04.2004	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
47.	आईसीडी.सं.13/04.02.01/2003-04	18.05.2004	गोल्ड कार्ड धारी निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण ब्याज दर
48.	बैंपविवि.सं. बीसी.85/13.07.01/2003- 04	18.05.2004	अग्रिमों पर ब्याज दरें
49.	बैंपविवि.सं. बीसी.84/13.07.01/2004- 05	29.04.2005	अग्रिमों पर ब्याज दरें
50.	बैंपविवि.डीआइआर(ईएक्सपी).बीसी.सं.83 /04.02.01/2005-06	28.04.2006	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
51.	बैंपविवि.डीआइआर(ईएक्सपी).बीसी.सं.79	17.04.2007	अग्रिमों पर ब्याज दरें

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
	/04.02.01/2006-07		
52.	ग्राआऋवि.आयो.बीसी.84/04.09.01/2006-07	30.04.2007	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार संबंधी दिशानिर्देश - संशोधित
53.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.93/13.03.00/2006-07	07.05.2007	बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज संबंधी शिकायतें
54.	ग्राआऋवि.सं.आयो.बीसी.10856/04.09.01/2006-07	18.05.2007	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार संबंधी संशोधित दिशानिर्देश-कमजोर वर्ग
55.	बैंपविवि.डीआइआर(ईएक्सपी).बीसी.सं.77/04.02.01/2007-08	28.04.2008	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
56.	बैंपविवि.सं.डीआइआर(ईएक्सपी).बीसी.131/04.02.01/2008-09	29.04.2009	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
57.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.88/13.03.00/2009-10	09.04.2010	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
58.	बैंपविवि.सं.डीआइआर(ईएक्सपी).बीसी.102/04.02.01/2009-10	06.05.2010	रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
59.	मेल बॉक्स स्पर्धीकरण	14.05.2010	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
60.	मेल बॉक्स स्पर्धीकरण	24.09.2010	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश

क्र.सं	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
61.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.73/13.03.0 0/2010-11	06.1.2011	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
62.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.81/13.03.0 0/2010-11	21.02.2011	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
63.	बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.34/13.03.0 0/2011-12	09.09.2011	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
64.	बैंपविवि..डीआइआर.सं . 12740/ 13.07.01/2011-12	24.2.2012	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
65.	मेल बॉक्स स्पर्डीकरण	10.04.2012	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
66.	मेल बॉक्स स्पर्डीकरण	27.04.2012	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश
67.	मेल बॉक्स स्पर्डीकरण	31.12.2012	आधार दर संबंधी दिशानिर्देश